



### ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज, बहुत ज्यादा बाढ़ के कारण निवासियों को चर्चविले क्षेत्र में से सुरक्षित रूप से बाहर निकाल रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 फरवरी, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, चर्चविले (Churchville) क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ का सामना करते हुए, नीचे दिए क्षेत्रों में बाकी निवासियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए, पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police) के साथ मिलकर काम कर रही है:

- चर्चविले रोड (Churchville Road) के चुनिंदा क्षेत्र
- मार्टिन्स बुलेवार्ड (Martins Boulevard)
- चर्च स्ट्रीट (Church Street)
- विक्टोरिया स्ट्रीट (Victoria Street)
- ऐडेलेड स्ट्रीट (Adelaide Street)
- क्रेडिटव्यू रोड (Creditview Road) के चुनिंदा क्षेत्र

हालांकि बहुत सारे निवासियों को पहले ही इस क्षेत्र में से बाहर निकाल लिया गया है, फिर भी बाहर निकालने की यह जरूरत, पूरी रात रहेगी और कल इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services), ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office), ब्रैम्पटन पब्लिक वर्क्स (Brampton Public Works), ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police), रीजन ऑफ पील ह्यूमैन सर्विसिज (Region of Peel Human Services) और क्रेडिट वेली कन्जर्वेशन (Credit Valley Conservation), साइट पर रहेंगे और लगातार स्थिति का निरीक्षण करके, उस पर काम करेंगे।

यदि निवासी खतरे में हों, तो उन्हें तुरंत, 9-1-1 पर फोन करना चाहिए। म्युनिसिपल रोड्स पर लोकल तौर पर बाढ़, तूफान के पानी से रुके हुए सीवर ग्रेट्स या बेसमेंट बाढ़ की रिपोर्ट करने के लिए, 311 पर फोन करें।

#### बाढ़ से सुरक्षा संबंधी सुझाव

एन्वायरनमेंट कॅनेडा (Environment Canada) ने, कल सुबह बारिश, फ्रीज़िंग बारिश और स्नो के पूर्व अनुमान के साथ, ब्रैम्पटन के लिए विशेष मौसम स्टेटमेंट जारी की है। क्रेडिट वेली कन्जर्वेशन ने भी बाढ़ की चेतावनी जारी की है।

निवासियों को इन सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है:



- रुके हुए पानी के साथ, इनडोर इलेक्ट्रिकल सिस्टमों और अंडरग्राउंड या नीचे गिरी हुई बिजली की तारों के द्वारा करंट आ सकता है। खुद को, बच्चों को और पालतू जानवरों को, रुके हुए पानी और नीचे गिरी हुई बिजली की तारों से दूर रखें।
- बाढ़ का पानी जल्दी से बहता है और डूबने का खतरा पैदा करता है। अपनी सुरक्षा कायम रखें तथा बाढ़ के पानी में ड्राइव न करें या चलें न।
- बिल्डिंग स्ट्रक्चर बाढ़ से प्रभावित होकर, असुरक्षित हो सकते हैं। पोर्च की छतों और बाहर निकले हिस्सों सहित, यदि नींव और स्ट्रक्चर खराब होने के कोई संभावी लक्षण नज़र आए तो अपने घरों से बाहर आ जाएं।
- बाढ़ का पानी, अकसर सड़कों और वाकवेज को नष्ट कर देता है। सड़कें कमज़ोर हो सकती हैं और कार के वज़न के नीचे टूट सकती हैं। बाढ़ के पानी में ड्राइव न करें या चलें न।
- बाढ़ के पानी में सीवेज (इसमें बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स हो सकते हैं), केमिकल और मलबा हो सकता है, जैसे टूटा हुआ कांच। सबसे नीचे के क्षेत्रों से दूर रहें। खुद को, परिवार को और पालतू जानवरों को, बाढ़ के पानी से दूर रखें।
- तब तक बाढ़ वाले क्षेत्र में प्रवेश न करें, जब तक कि आपने सही निजी सुरक्षात्मक उपकरण और कपड़े न पहने हुए हों।

निवासी, बिल्कुल ताज़ा अपडेट्स के लिए Twitter पर, [@BEMOPrepared](#) को फॉलो कर सकते हैं और बाढ़ से सुरक्षा संबंधी जानकारी के लिए, [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर जा सकते हैं।

-30-

#### मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)